

Memorandum - 25-05-2025

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE (Healthcare)		Koshika foundation Building block of life.	
APPLICATION No.: M/0525/0105 आवेदन संख्या:		APPLICATION DATE: 09/05/25 आवेदन तिथि	
NAME of APPLICANT: Bakel आवेदक का नाम		AGE-YEARS: 60 आयु-वर्ष	SEX: M लिंग
FATHER'S/SPOUSE'S NAME: Ganpat Urmga पिता/कन्या का नाम		PRESENT RESIDENCE ADDRESS: Same as above वर्तमान आवासीय पता	
Nagari Bhilkhampur Khori Bhilkhampur Nagar Pradesh - 22805 PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: Same as above स्थायी आवासीय पता		TO HERE Proof Postop	
OCCUPATION: Farmer व्यवसाय		MARRIED (निवृत्ति) / UNMARRIED (अविवाहित)	
TOTAL ANNUAL INCOME: 45,000/- कुल वार्षिक आय		(Attach Proof of Income) (आय का साक्ष्य संलग्न)	
PAN No. [Blank] आय का संचय संख्या			
ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable): क्या आप आय कर दाता हैं (जो मान्य हो उस पर सही का निशान लगायें)		Yes / No हाँ / नहीं	
FAMILY DETAILS परिवार विवरण			
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग
1	Manish Kumar	30	M
2	Raj Kumar	25	M
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिये विनती आधार			
BPL Card (Attach Card Copy) गरीबी रेषा के नीचे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) अल्प आय वर्ग प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) उपभोक्ता कार्ड (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष्य
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु किये गये विनती का उद्देश्य:			
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/डॉक्टर से जारी की गई प्रतिक्रिया सूची संलग्न		
1	Diagnosis: 45.901, 45.902, 45.903, 45.904, 45.905, 45.906, 45.907, 45.908, 45.909, 45.910, 45.911, 45.912, 45.913, 45.914, 45.915, 45.916, 45.917, 45.918, 45.919, 45.920, 45.921, 45.922, 45.923, 45.924, 45.925, 45.926, 45.927, 45.928, 45.929, 45.930, 45.931, 45.932, 45.933, 45.934, 45.935, 45.936, 45.937, 45.938, 45.939, 45.940, 45.941, 45.942, 45.943, 45.944, 45.945, 45.946, 45.947, 45.948, 45.949, 45.950, 45.951, 45.952, 45.953, 45.954, 45.955, 45.956, 45.957, 45.958, 45.959, 45.960, 45.961, 45.962, 45.963, 45.964, 45.965, 45.966, 45.967, 45.968, 45.969, 45.970, 45.971, 45.972, 45.973, 45.974, 45.975, 45.976, 45.977, 45.978, 45.979, 45.980, 45.981, 45.982, 45.983, 45.984, 45.985, 45.986, 45.987, 45.988, 45.989, 45.990, 45.991, 45.992, 45.993, 45.994, 45.995, 45.996, 45.997, 45.998, 45.999, 46.000, 46.001, 46.002, 46.003, 46.004, 46.005, 46.006, 46.007, 46.008, 46.009, 46.010, 46.011, 46.012, 46.013, 46.014, 46.015, 46.016, 46.017, 46.018, 46.019, 46.020, 46.021, 46.022, 46.023, 46.024, 46.025, 46.026, 46.027, 46.028, 46.029, 46.030, 46.031, 46.032, 46.033, 46.034, 46.035, 46.036, 46.037, 46.038, 46.039, 46.040, 46.041, 46.042, 46.043, 46.044, 46.045, 46.046, 46.047, 46.048, 46.049, 46.050, 46.051, 46.052, 46.053, 46.054, 46.055, 46.056, 46.057, 46.058, 46.059, 46.060, 46.061, 46.062, 46.063, 46.064, 46.065, 46.066, 46.067, 46.068, 46.069, 46.070, 46.071, 46.072, 46.073, 46.074, 46.075, 46.076, 46.077, 46.078, 46.079, 46.080, 46.081, 46.082, 46.083, 46.084, 46.085, 46.086, 46.087, 46.088, 46.089, 46.090, 46.091, 46.092, 46.093, 46.094, 46.095, 46.096, 46.097, 46.098, 46.099, 46.100, 46.101, 46.102, 46.103, 46.104, 46.105, 46.106, 46.107, 46.108, 46.109, 46.110, 46.111, 46.112, 46.113, 46.114, 46.115, 46.116, 46.117, 46.118, 46.119, 46.120, 46.121, 46.122, 46.123, 46.124, 46.125, 46.126, 46.127, 46.128, 46.129, 46.130, 46.131, 46.132, 46.133, 46.134, 46.135, 46.136, 46.137, 46.138, 46.139, 46.140, 46.141, 46.142, 46.143, 46.144, 46.145, 46.146, 46.147, 46.148, 46.149, 46.150, 46.151, 46.152, 46.153, 46.154, 46.155, 46.156, 46.157, 46.158, 46.159, 46.160, 46.161, 46.162, 46.163, 46.164, 46.165, 46.166, 46.167, 46.168, 46.169, 46.170, 46.171, 46.172, 46.173, 46.174, 46.175, 46.176, 46.177, 46.178, 46.179, 46.180, 46.181, 46.182, 46.183, 46.184, 46.185, 46.186, 46.187, 46.188, 46.189, 46.190, 46.191, 46.192, 46.193, 46.194, 46.195, 46.196, 46.197, 46.198, 46.199, 46.200, 46.201, 46.202, 46.203, 46.204, 46.205, 46.206, 46.207, 46.208, 46.209, 46.210, 46.211, 46.212, 46.213, 46.214, 46.215, 46.216, 46.217, 46.218, 46.219, 46.220, 46.221, 46.222, 46.223, 46.224, 46.225, 46.226, 46.227, 46.228, 46.229, 46.230, 46.231, 46.232, 46.233, 46.234, 46.235, 46.236, 46.237, 46.238, 46.239, 46.240, 46.241, 46.242, 46.243, 46.244, 46.245, 46.246, 46.247, 46.248, 46.249, 46.250, 46.251, 46.252, 46.253, 46.254, 46.255, 46.256, 46.257, 46.258, 46.259, 46.260, 46.261, 46.262, 46.263, 46.264, 46.265, 46.266, 46.267, 46.268, 46.269, 46.270, 46.271, 46.272, 46.273, 46.274, 46.275, 46.276, 46.277, 46.278, 46.279, 46.280, 46.281, 46.282, 46.283, 46.284, 46.285, 46.286, 46.287, 46.288, 46.289, 46.290, 46.291, 46.292, 46.293, 46.294, 46.295, 46.296, 46.297, 46.298, 46.299, 46.300, 46.301, 46.302, 46.303, 46.304, 46.305, 46.306, 46.307, 46.308, 46.309, 46.310, 46.311, 46.312, 46.313, 46.314, 46.315, 46.316, 46.317, 46.318, 46.319, 46.320, 46.321, 46.322, 46.323, 46.324, 46.325, 46.326, 46.327, 46.328, 46.329, 46.330, 46.331, 46.332, 46.333, 46.334, 46.335, 46.336, 46.337, 46.338, 46.339, 46.340, 46.341, 46.342, 46.343, 46.344, 46.345, 46.346, 46.347, 46.348, 46.349, 46.350, 46.351, 46.352, 46.353, 46.354, 46.355, 46.356, 46.357, 46.358, 46.359, 46.360, 46.361, 46.362, 46.363, 46.364, 46.365, 46.366, 46.367, 46.368, 46.369, 46.370, 46.371, 46.372, 46.373, 46.374, 46.375, 46.376, 46.377, 46.378, 46.379, 46.380, 46.381, 46.382, 46.383, 46.384, 46.385, 46.386, 46.387, 46.388, 46.389, 46.390, 46.391, 46.392, 46.393, 46.394, 46.395, 46.396, 46.397, 46.398, 46.399, 46.400, 46.401, 46.402, 46.403, 46.404, 46.405, 46.406, 46.407, 46.408, 46.409, 46.410, 46.411, 46.412, 46.413, 46.414, 46.415, 46.416, 46.417, 46.418, 46.419, 46.420, 46.421, 46.422, 46.423, 46.424, 46.425, 46.426, 46.427, 46.428, 46.429, 46.430, 46.431, 46.432, 46.433, 46.434, 46.435, 46.436, 46.437, 46.438, 46.439, 46.440, 46.441, 46.442, 46.443, 46.444, 46.445, 46.446, 46.447, 46.448, 46.449, 46.450, 46.451, 46.452, 46.453, 46.454, 46.455, 46.456, 46.457, 46.458, 46.459, 46.460, 46.461, 46.462, 46.463, 46.464, 46.465, 46.466, 46.467, 46.468, 46.469, 46.470, 46.471, 46.472, 46.473, 46.474, 46.475, 46.476, 46.477, 46.478, 46.479, 46.480, 46.481, 46.482, 46.483, 46.484, 46.485, 46.486, 46.487, 46.488, 46.489, 46.490, 46.491, 46.492, 46.493, 46.494, 46.495, 46.496, 46.497, 46.498, 46.499, 46.500, 46.501, 46.502, 46.503, 46.504, 46.505, 46.506, 46.507, 46.508, 46.509, 46.510, 46.511, 46.512, 46.513, 46.514, 46.515, 46.516, 46.517, 46.518, 46.519, 46.520, 46.521, 46.522, 46.523, 46.524, 46.525, 46.526, 46.527, 46.528, 46.529, 46.530, 46.531, 46.532, 46.533, 46.534, 46.535, 46.536, 46.537, 46.538, 46.539, 46.540, 46.541, 46.542, 46.543, 46.544, 46.545, 46.546, 46.547, 46.548, 46.549, 46.550, 46.551, 46.552, 46.553, 46.554, 46.555, 46.556, 46.557, 46.558, 46.559, 46.560, 46.561, 46.562, 46.563, 46.564, 46.565, 46.566, 46.567, 46.568, 46.569, 46.570, 46.571, 46.572, 46.573, 46.574, 46.575, 46.576, 46.577, 46.578, 46.579, 46.580, 46.581, 46.582, 46.583, 46.584, 46.585, 46.586, 46.587, 46.588, 46.589, 46.590, 46.591, 46.592, 46.593, 46.594, 46.595, 46.596, 46.597, 46.598, 46.599, 46.600, 46.601, 46.602, 46.603, 46.604, 46.605, 46.606, 46.607, 46.608, 46.609, 46.610, 46.611, 46.612, 46.613, 46.614, 46.615, 46.616, 46.617, 46.618, 46.619, 46.620, 46.621, 46.622, 46.623, 46.624, 46.625, 46.626, 46.627, 46.628, 46.629, 46.630, 46.631, 46.632, 46.633, 46.634, 46.635, 46.636, 46.637, 46.638, 46.639, 46.640, 46.641, 46.642, 46.643, 46.644, 46.645, 46.646, 46.647, 46.648, 46.649, 46.650, 46.651, 46.652, 46.653, 46.654, 46.655, 46.656, 46.657, 46.658, 46.659, 46.660, 46.661, 46.662, 46.663, 46.664, 46.665, 46.666, 46.667, 46.668, 46.669, 46.670, 46.671, 46.672, 46.673, 46.674, 46.675, 46.676, 46.677, 46.678, 46.679, 46.680, 46.681, 46.682, 46.683, 46.684, 46.685, 46.686, 46.687, 46.688, 46.689, 46.690, 46.691, 46.692, 46.693, 46.694, 46.695, 46.696, 46.697, 46.698, 46.699, 46.700, 46.701, 46.702, 46.703, 46.704, 46.705, 46.706, 46.707, 46.708, 46.709, 46.710, 46.711, 46.712, 46.713, 46.714, 46.715, 46.716, 46.717, 46.718, 46.719, 46.720, 46.721, 46.722, 46.723, 46.724, 46.725, 46.726, 46.727, 46.728, 46.729, 46.730, 46.731, 46.732, 46.733, 46.734, 46.735, 46.736, 46.737, 46.738, 46.739, 46.740, 46.741, 46.742, 46.743, 46.744, 46.745, 46.746, 46.747, 46.748, 46.749, 46.750, 46.751, 46.752, 46.753, 46.754, 46.755, 46.756, 46.757, 46.758, 46.759, 46.760, 46.761, 46.762, 46.763, 46.764, 46.765, 46.766, 46.767, 46.768, 46.769, 46.770, 46.771, 46.772, 46.773, 46.774, 46.775, 46.776, 46.777, 46.778, 46.779, 46.780, 46.781, 46.782, 46.783, 46.784, 46.785, 46.786, 46.787, 46.788, 46.789, 46.790, 46.791, 46.792, 46.793, 46.794, 46.795, 46.796, 46.797, 46.798, 46.799, 46.800, 46.801, 46.802, 46.803, 46.804, 46.805, 46.806, 46.807, 46.808, 46.809, 46.810, 46.811, 46.812, 46.813, 46.814, 46.815, 46.816, 46.817, 46.818, 46.819, 46.820, 46.821, 46.822, 46.823, 46.824, 46.825, 46.826, 46.827, 46.828, 46.829, 46.830, 46.831, 46.832, 46.833, 46.834, 46.835, 46.836, 46.837, 46.838, 46.839, 46.840, 46.841, 46.842, 46.843, 46.844, 46.845, 46.846, 46.847, 46.848, 46.849, 46.850, 46.851, 46.852, 46.853, 46.854, 46.855, 46.856, 46.857, 46.858, 46.859, 46.860, 46.861, 46.862, 46.863, 46.864, 46.865, 46.866, 46.867, 46.868, 46.869, 46.870, 46.871, 46.872, 46.873, 46.874, 46.875, 46.876, 46.877, 46.878, 46.879, 46.880, 46.881, 46.882, 46.883, 46.884, 46.885, 46.886, 46.887, 46.888, 46.889, 46.890, 46.891, 46.892, 46.893, 46.894, 46.895, 46.896, 46.897, 46.898, 46.899, 46.900, 46.901, 46.902, 46.903, 46.904, 46.905, 46.906, 46.907, 46.908, 46.909, 46.910, 46.911, 46.912, 46.913, 46.914, 46.915, 46.916, 46.917, 46.918, 46.919, 46.920, 46.921, 46.922, 46.923, 46.924, 46.925, 46.926, 46.927, 46.928, 46.929, 46.930, 46.931, 46.932, 46.933, 46.934, 46.935, 46.936, 46.937, 46.938, 46.939, 46.940, 46.941, 46.942, 46.943, 46.944, 46.945, 46.946, 46.947, 46.948, 46.949, 46.950, 46.951, 46.952, 46.953, 46.954, 46.955, 46.956, 46.957, 46.958, 46.959, 46.960, 46.961, 46.962, 46.963, 46.964, 46.965, 46.966, 46.967, 46.968, 46.969, 46.970, 46.971, 46.972, 46.973, 46.974, 46.975, 46.976, 46.977, 46.978, 46.979, 46.980, 46.981, 46.982, 46.983, 46.984, 46.985, 46.986, 46.987, 46.988, 46.989, 46.990, 46.991, 46.992, 46.993, 46.994, 46.995, 46.996, 46.997, 46.998, 46.999, 47.000, 47.001, 47.002, 47.003, 47.004, 47.005, 47.006, 47.007, 47.008, 47.009, 47.010, 47.011, 47.012, 47.013, 47.014, 47.015, 47.016, 47.017, 47.018, 47.019, 47.020, 47.021, 47.022, 47.023, 47.024, 47.025, 47.026, 47.027, 47.028, 47.029, 47.030, 47.031, 47.032, 47.033, 47.034, 47.035, 47.036, 47.037, 47.038, 47.039, 47.040, 47.041, 47.042, 47.043, 47.044, 47.045, 47.046, 47.047, 47.048, 47.049, 47.050, 47.051, 47.052, 47.053, 47.054, 47.055, 47.056, 47.057, 47.058, 47.059, 47.060, 47.061, 47.062, 47.063, 47.064, 47.065, 47.066, 47.067, 47.068, 47.069, 47.070, 47.071, 47.072, 47.073, 47.074, 47.075, 47.076, 47.077, 47.078, 47.079, 47.080, 47.081, 47.082, 47.083, 47.084, 47.085, 47.086, 47.087, 47.088, 47.089, 47.090, 47.091, 47.092, 47.093, 47.094, 47.095, 47.096, 47.097, 47.098, 47.099, 47.100, 47.101, 47.102, 47.103, 47.104, 47.105, 47.106, 47.107, 47.108, 47.109, 47.110, 47.111, 47.112, 47.113, 47.114, 47.115, 47.116, 47.117, 47.118, 47.119, 47.120, 47.121, 47.122, 47.123, 47.124, 47.125, 47.126, 47.127, 47.128, 47.129, 47.130, 47.131, 47.132, 47.133, 47.134, 47.135, 47.136, 47.137, 47.138, 47.139, 47.140, 47.141, 47.142, 47.143, 47.144, 47.145, 47.146, 47.147, 47.148, 47.149, 47.150, 47.151, 47.152, 47.153, 47.154, 47.155, 47.156, 47.157, 47.158, 47.159, 47.160, 47.161, 47.162, 47.163, 47.164, 47.165, 47.166, 47.167, 47.168, 47.169, 47.170, 47.171, 47.172, 47.173, 47.174, 47.175, 47.176, 47.177, 47.178, 47.179, 47.180, 47.181, 47.182, 47.183, 47.184, 47.185, 47.186, 47.187, 47.188, 47.189, 47.190, 47.191, 47.192, 47.193, 47.194, 47.195, 47.196, 47.197, 47.198, 47.199, 47.200, 47.201, 47.202, 47.203, 47.204, 47.205, 47.206, 47.207, 47.208, 47.209, 47.210, 47.211, 47.212, 47.213, 47.214, 47.215, 47.216, 47.217, 47.218, 47.219, 47.220, 47.221, 47.222, 47.223, 47.224, 47.225, 47.226, 47.227, 47.228, 47.229, 47.230, 47.231, 47.232, 47.233, 47.234, 47.235, 47.236, 47.237, 47.238, 47.239, 47.240, 47.241, 47.242, 47.243, 47.244, 47.245, 47.246, 47.247, 47.248, 47.249, 47.250, 47.251, 47.252, 47.253, 47.254, 47.255, 47.256, 47.257, 47.258, 47.259, 47.260, 47.261, 47.262, 47.263, 47.264, 47.265, 47.266, 47.267, 47.268, 47.269, 47.270, 47.271, 47.272, 47.273, 47.274, 47.275, 47.276, 47.277, 47.278, 47.279, 47.280, 47.281, 47.282, 47.283, 47.284, 47.285, 47.286, 47.287, 47.288, 47.289, 47.290, 47.291, 47.292, 47.293, 47.294, 47.295, 47.296, 47.297, 47.298, 47.299, 47.300, 47.301, 47.302, 47.303,		



**DECLARATION by APPLICANT: आवेदक द्वारा घोषणा पत्र:**

- 1) I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
- 2) I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
- 3) I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.
- 1) मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रारूप में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। यदि कोई विवरण एवं कथन असत्य पाया जाता है तो मेरी सहायता निरस्त की जा सकती है।
- 2) मैं दृढ़ता से सहायता प्राप्त करने के लिए "कोशिका फाउन्डेशन" से सहायता की घोषणा करता हूँ, जो इस प्रारूप में मांगी जा रही है, उसका उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाएगा, जो इस प्रारूप में मांगी गया है।
- 3) मैं पुष्टि करता हूँ कि जिस सहायता हेतु यह प्रार्थना की गई है, उस राशि का कोई भी हिस्सा किसी अन्य स्रोत/नियोक्ता/बीमा कम्पनी से न तो लिया है और न ही भविष्य में ली जायेगी।

**AGREEMENT by APPLICANT (आवेदक द्वारा करार)**

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and its Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about its activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.
- 2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision is this regard will be final and acceptable to me.

- 1) इस प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लगाकर, मैं (आवेदक) अपनी सहमति को पुष्टि करता हूँ एवं "कोशिका फाउन्डेशन और उसके न्यासी" को अधिकृत करता हूँ कि मेरा नाम, पता, फोटो और मेरे विवरण इस प्रारूप में प्रकाशित हैं, उसे "कोशिका" एम्. न्यासी, एन. याचक/या दूसरे उद्देश्य से जुड़ी गतिविधियों और उपलब्धियों के लिये किसी भी प्रकार माध्यम से प्रसारित करने के लिए अधिकृत है। मेरे प्रारूप का विवरण मेरे इलाज के पहले या बाद में करने के लिए "कोशिका फाउन्डेशन" से न्यासी अधिकृत है।
- 2) मैं (आवेदक) इस बात से सहमत हूँ कि मेरा नाम, पता, फोटो और विवरण जो कि सहायता के उद्देश्यों से प्रार्थित हैं पूर्ण स्वतः सहायता का हकदार नहीं बनाता। इस सम्बंध में "कोशिका" एम्. उसको न्यासियों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION :**

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान


**AGREEMENT by HOSPITAL (हस्पताल द्वारा करार)**

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (Hospital) hereby affirm & accept following:



- 1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves its right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.
- 2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & its outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

हमारे अधिकृत, हस्ताक्षर की ओर से मामले/रोगी को "कोशिका फाउन्डेशन" से वित्तीय सहायता हेतु सिफारिश की जाती है, जिसे हम (हस्पताल) निम्न प्रकार से मान्य व स्वीकार करते हैं।



- 1) यह कि न तो वर्तमान और न ही भविष्य में वित्तीय सहायता किसी और सरकारी संस्थान या किसी अन्य स्रोत से उठाया योग्य/मांगले में ली जा ले रहे हैं, जैसे कि हमने "कोशिका फाउन्डेशन" से सिफारिश/विनिर्दिष्ट उक्त के सम्बंध में "कोशिका फाउन्डेशन" द्वारा मदद हेतु किया है। यदि "कोशिका फाउन्डेशन" द्वारा सहायता विनिर्दिष्ट आर्थिक/सकल हेतु मंजूर नहीं किया जाता है तो अस्पताल किसी अन्य गैर सरकारी संस्था या किसी अन्य संस्थान से सहायता लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस पुष्टि में स्पष्ट कहा जाता है कि अस्पताल द्वितीय मदद उक्त योग्य/मांगले हेतु किसी गैर सरकारी संस्था या किसी अन्य संस्थान से नहीं लेगा/लेगी।
- 2) "कोशिका फाउन्डेशन" से ली गई सहायता केवल वित्तीय प्रकृति की है। रोगी पर हस्पताल द्वारा दी गई सलाह या किये गये उपचार/प्रक्रिया का चुनाव रोगी एवं हस्पताल के बीच का विषय है और "कोशिका फाउन्डेशन" द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसीलिए हस्पताल में रोगी के इलाज सुरक्षा और आने जाने की सभी जिम्मेदारियां रोगी एवं हस्पताल की होंगी और "कोशिका" को कोई धुनिका या जिम्मेदारी इस मामले में नहीं होगी।

**RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE**

स्वीकृति के लिए संस्तुति

Date of Surgery ऑपरेशन की तारीख 09/05/24	 Dr. Akash Kumar M.B.B.S., M.S. (Name of Dr. Regd. Now with Stamp) डॉक्टर का नाम व हस्ताक्षर के साथ न.	 (Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory on behalf of Hospital) नाम व पर हस्पताल अधिकृत अधिकारी
--	---	---

**FOR INTERNAL USE of KOSHIKA FOUNDATION** आन्तरिक उपयोग हेतु

SIGNATURE of TRUSTEE 1 न्यासी हस्ताक्षर 1 	SIGNATURE of TRUSTEE 2 न्यासी हस्ताक्षर 2 
---	--